

लेखाशास्त्र - केवल प्रश्न-पत्र

समय - 3 घण्टा 15 मिनट

कक्षा - 11

पूर्णांक -100

निर्देश:-प्रारम्भ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए हैं।

नोट:- (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। (ii) प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है)

नोट:- निम्न प्रश्न-खण्डों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर-पुस्तिका पर लिखिए:-

- तलपत्र में लिखा पूर्वदत्त व्यय का लेखा किया जायेगा :-
 (अ) व्यापार खाते में (ब) लाभ-हानि खाते में
 (स) व्यापार एवं लाभ हानि खाते में (द) चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में।
- ख्याति है :-
 (अ) अस्थाई सम्पत्ति (ब) नाशवान सम्पत्ति
 (स) बनावटी सम्पत्ति (द) अमूर्त सम्पत्ति।
- नये यंत्र की स्थापना पर व्यय है :-
 (अ) पूँजीगत व्यय (ब) पूँजीगत हानि
 (स) आगम व्यय (द) आगम हानि।
- प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान करता है :-
 (अ) लिखने वाला (ब) प्रतिज्ञा-पत्र प्राप्त करने वाला
 (स) बैंक (द) इनमें से कोई नहीं।
- तलपत्र के अन्तर को अन्तरिक किया जाता है :-
 (अ) पूँजी खाते में (ब) आर्थिक चिट्ठे में
 (स) लाभ-हानि खाते में (द) उच्चत खाते में।
- तलपत्र में दर्शाये जाते हैं :-
 (अ) व्यक्तिगत खाते (ब) वास्तविक खाते
 (स) नाम-मात्र के खाते (द) ये सभी।
- फर्नीचर विक्रेता द्वारा फर्नीचर का उधार विक्रय उल्लेखित होगा :-
 (अ) क्रय बही में (ब) विक्रय बही में
 (स) रोकड़ बही में (द) मुख्य जर्नल में।
- रोकड़ बही में लेखा होता है :-
 (अ) सभी नकद प्राप्तियों का (ब) सभी नकद भुगतानों का
 (स) सभी नकद प्राप्तियों एवं भुगतानों का (द) इनमें से कोई नहीं।
- निम्न में से किसको जर्नल में प्रविष्ट नहीं की जाती है :-
 (अ) व्यापारिक बट्टा (ब) नकद बट्टा
 (स) नकद कमीशन (द) इनमें से कोई नहीं।
- निम्नलिखित में कौन-सा नाम मात्र का खाता है :-
 (अ) ब्याज खाता (ब) अदत्त ब्याज खाता
 (स) उपार्जित ब्याज खाता (द) पूर्वदत्त ब्याज खाता।

(पृष्ठ पलटिए)

11. अन्तिम स्कन्ध का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर कब होगा?
12. वित्तीय विवरण के दो उद्देश्य बताइए।
13. अनुग्रह बिल क्या है?
14. अनुग्रह दिवस से आप क्या समझते हैं?
15. सैद्धान्तिक अशुद्धि को समझाइए।
16. तलपट तैयार करने के दो उद्देश्य बताइए।
17. तीन खाने वाली रोकड़ बही में विपरीत लेखा क्या होता है?
18. मिश्रित जर्नल लेखा क्या होता है?
19. लेखांकन प्रमाणक क्या है?
20. पुस्तपालन की परिभाषा दीजिए।

(लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 5 अंक— उत्तर सीमा 100 शब्द)

21. तलपट और आर्थिक चिट्ठे में पाँच अन्तर बताइए।
22. आस्थगित आगम व्यय से आप क्या समझते हैं? इसके उदाहरण देते हुये समझाइए।
23. एक पक्षीय एवं द्विपक्षीय अशुद्धियों को उदाहरण सहित समझाइए।
24. तलपट बनाने की विधियों को समझाइए।
25. विक्रय बही का प्रारूप तीन व्यवहारों को प्रकट करते हुये बनाइए।
26. डेबिट प्रमाणक क्या है? डेबिट प्रमाणक का नमूना बनाइए।

(दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक 10 अंक — उत्तर सीमा 150 शब्द)

27. श्री पी. लाल का 31 मार्च, 2023 का तलपट नीचे दिया है। इससे आप वर्ष का व्यापार एवं लाभ-हानि खाता तथा 31 मार्च, 2023 का चिट्ठा तैयार कीजिए :-

डेबिट शेष	धनराशि (रु.)	क्रेडिट शेष	धनराशि (रु.)
प्रारम्भिक रहतिया	16,000	बैंक ऋण	4,400
विविध देनदार भवन	24,000	विधि लेनदार	11,600
मशीनरी	17,000	पूँजी	32,000
आहरण	4,000	बिक्री	1,30,000
क्रय	90,000	कटौती	400
बीमा व कर	1,500	क्रय वापसी	800
बिक्री वापसी	600	कमीशन	750
वेतन	8,200	अशोध्य ऋणार्थ प्रावधान	400
क्रय पर भाड़ा	1,250	देय विपत्र	2,000
अशोध्य ऋण	300		
प्राप्त विपत्र	4,500		
हाथ में रोकड़	1,400		
व्यापारिक व्यय	3,600		
	1.82,350		1,82,350

निम्न समायोजनाएँ आवश्यक हैं :-

(अ) अन्तिम रहतिया का मूल्य रु. 12,000 था।

- (ब) पूँजी पर 5% वार्षिक ब्याज लगाना था
- (स) वेतन के रु. 800 अदत्त थे
- (द) बीमा के रु. 300 पूर्वदत्त थे
- (य) देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण प्रावधान बनाना है।
- (र) मशीनरी पर 10% वार्षिक की दर से ह्रास लगाना है।

अथवा

“तलपट शुद्धता का निश्चित प्रमाण नहीं है।” व्याख्या कीजिए तथा उन सभी गलतियों का विवेचन कीजिए जो तलपट मिल जाने के बाद भी रह सकती है।

28. 1 जनवरी, 2023 को महेश ने सुरेश को रु. 4,400 का उधार माल बेचा और इसके लिए 3 माह की अवधि का एक बिल लिखा जिसे सुरेश ने स्वीकार किया। उसी दिन महेश ने इस बिल को 6% वार्षिक की दर से अपने बैंक से भुना लिया। देय तिथि पर बिल का भुगतान नहीं हुआ तथा बैंक ने रु. 100 निकराई व्यय के दिये। 8 अप्रैल को सुरेश ने महेश से प्रार्थना की कि वह निकराई व्यय तथा बिल की राशि में से रु. 400 नकद लेले और शेष रकम पर 6% वार्षिक की दर से 4 माह ब्याज नकद लेकर एक नया बिल शेष राशि के लिए लिख दे, महेश इस प्रस्ताव पर राजी हो गया। इसी नवीन बिल का सुरेश ने दिव्य तिथि पर भुगतान कर दिया।

महेश की पुस्तकों में जर्नल लेखा कीजिए और सुरेश का खाता बनाइए।

अथवा

पूँजीगत और आयगत व्ययों से आप क्या समझते हैं? इसकी अलग-अलग विशेषताएँ लिखिए।

29. एक व्यापारी ने तलपट का मिलान नहीं हो पा रहा था अतः उसने तलपट के अन्तर रु. 5,590 को उच्चत खाते में क्रेडिट कर दिया। खातों की जाँच से निम्न अशुद्धियाँ ज्ञात हुईं। अशुद्धियों में संशोधन हेतु जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए और उच्चत खाता बनाइए :-

- (क) विक्रय वापसी पुस्तक का योग रु. 500 कम लगाया गया।
- (ख) मोहन का खाता रु. 5,120 से क्रेडिट करना था किन्तु उसके खाते के डेबिट पक्ष में रु. 2,150 लिखे गये।
- (ग) रु. 20,000 का एक यंत्र क्रय किया जिसकी प्रविष्टि क्रय खातों में की गई।
- (घ) रु. 1,720 का विक्रय, विक्रय खाते में रु. 2,170 लिखा गया।
- (ङ) रमेश को रु. 410 बट्टा दिया गया किन्तु उसके खाते में केवल रु. 140 ही लिखे गये।
- (च) यंत्र पर रु. 1,000 ह्रास लगाया गया, परन्तु इसका लेखा ह्रास खाते में नहीं किया गया।

अथवा

लेखांकन के परम्परावादी दृष्टिकोण के अनुसार डेबिट और क्रेडिट करने के नियम उदाहरण सहित समझाइए।

30. तीन खाने वाली रोकड़ बही से आप क्या समझते हैं? एक नमूना बनाकर दोनों और पाँच-पाँच कल्पित प्रविष्टियाँ कीजिए तथा इनका शेष निकालिए।

अथवा

लेखांकन की किन्हीं चार अवधारणाओं का वर्णन कीजिए।